



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 743) पटना, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2014

श्रम संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

4 सितम्बर 2014

सं0 113—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की दिनांक 23.07.2014 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं उनके ज्ञापक-10938 दिनांक 07.08.2014 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री विजय कुमार, पुत्र-स्व0 रामप्रवेश राम, भूतपूर्व अनुसेवक, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष), बिहार, पटना की श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना (मुख्यालय) में समूह-‘घ’ के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यालय परिचारी के पद पर वेतन बैण्ड 1S-4440-7440/- एवं ग्रेड पे-1650/- में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इन्हें ग्रेड पे-रू0 1800/- एवं वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरान्त देय होगी।

2. श्री विजय कुमार की जन्म तिथि 26.01.1980 है एवं मैट्रिक अनुत्तीर्ण है लेकिन महादलित समुदाय के अन्तर्गत आते हैं।

3. यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।

4. श्री कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेंगे होगा।

5. श्री कुमार को योगदान के समय जाति प्रमाण-पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र प्रमाण-पत्र को सही मानकर की जा रही है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

8. श्री कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

9. श्री कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-1198 दिनांक 29.03.2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत इसे राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये ।

आदेश से,  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
श्रमायुक्त।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 743-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>